
CLASS :III	ACAI	ALA PUBLIC SCHOO DEMIC YEAR 2020-2 DME ASSIGNMENT	
SUBJECT			
MATHS			
	Work to be done in Maths n	ote book.	
	1. Write in words.		
	a) 3,725 =		
	b) 7,836 =		
	2. Write the predecessor Predecessor		<b>given number.</b> Successor
	a)		
	b)		
		2,007	
	3. Write the face value ar	—	underlined digit. Place Value
	a) 40 <u>7</u> 2		
	b) 5 <u>3</u> 91		
	<ul> <li>4. Write the numbers in e</li> <li>a) 8062 =</li> <li>b) 9875 =</li> </ul>	-	
	<ul> <li>5. Write the short form for</li> <li>a) 2000 + 300 + 50 + 7 =</li> </ul>		l form: 
	6. Write the numbers in t	he expanded notation.	
	a) $4372 = $ thousa	nd + hundreds +	tens + 0nes
	b) 5896 = thousa 7. Find the sum:	and + hundreds +	tens + 0nes
	a) H T O		b) H T O
			5 7 9
	+ 2 7 8		+ 364
	8. Find the sum ( without	regrouning)	<u>+ 0 </u>
	a) The H T O	, robi outring)	b) Th H T O
	4 3 7 9		5 8 3 2
	+3 5 2 0		+3 1 6 7

	9. Find the sum ( with regrouping)		
	a) Th H T O	b) Th H T O	
	4 8 7 9	5 8 5 6	
	+3 5 2 4	+3 7 6 7	
	<u>······</u>		
	10. Arrange the numbers in columns and add		
	a) $5,432 + 3,125 + 782$	•	
	b) 3,119 + 2, 541 + 3,225 + 1,773		
	S Chapter 2 Doman Numerala		
	► Chapter 2 Roman Numerals		
	Pages 32 & 33 Exercise 2.1		
	Pages 34 & 35 Test Zone & Mental Maths		
	All these exercise to be done in the Math	as textbook.	
SCIENCE O	CHAPTER -11 LIGHT,SOUND AND FO	DRCE	
	1. Read the chapter thoroughly.		
	2. Learn the words mentioned below:		
		friction	
	light luminous pleasant		
	sound shadow noise	slide	
	force actual disturb	movement	
	object whisper push	slip	
	source honk pull	volume	
	3. Pg-106 1. Which of the above objects	give off light on their own?	
	2. Do all the objects give off l	ight?	
	4. Pg- 108 Let's remember (I&II)		
	5. Pg-111 Let's understand		
	I. Objective type questions		
	A. Fill in the blanks with the correct words.		
l l	1. The Sun is a <b><u>natural</u></b> source of lig	ht.	
	2. A shadow is <b>short</b> at noon.		
	3. Our ears help us <u>hear</u> sound.		
	4. <u>Loud and unpleasant</u> sound is ca	lled a noise	
	5. A push or pull is called <u>force.</u>		
	5. A push of pull is called <b><u>101Ce.</u></b>		
j je	B. Write T for the True and F for the False	statements.	
	1. Friction is a type of force. $\underline{\mathbf{T}}$		
	2. All objects give off light. <u><b>F</b></u>		
	3. All sounds are pleasant. $\underline{\mathbf{F}}$		
	4. Shadows of different objects are o	f different colours. <u>F</u>	
	5. Friction makes things go faster.	<u>F</u>	
	C. Choose the correct option.		



e.g. Sun, torch etc.

2. What is a shadow? When do objects form shadows?

Ans: A shadow is the dark patch formed when an object blocks the path of light from a luminous object like the Sun, a bulb, or a candle.

3. What are the different types of sounds we hear?

Ans: The different types of Sounds we hear can be soft or loud, pleasant or unpleasant.4. Differentiate between luminous and non-luminous objects. Give examples.

Ans:Objects that give out light are called luminous objects .E.g. the Sun, candles etc.

Objects that do not give out light are called non-luminous objects. E.g. paper,pen etc. 5. What is friction? Give one use of friction in our daily life.

Ans: Friction is a special force that slows down movements.

If friction is very less, things will slide. If there was no friction, we would not be able to walk.

NOTE: The above exercise should be done in the school notebook.

## CHAPTER -2 KEEPING SAFE

## III. Answer the following questions:-

1. How can we avoid injuries?

Ans: We could avoid injuries by following safety rules.

2. Write any three rules to stay safe at home.

Ans: The three rules to stay safe at home are:

(i) Do not go near the gas stove.

(ii) Be careful while walking on the wet floors.

(iii) Do not leave your toys, books, etc. lying on the floor.

3. Write any three rules to stay safe at school.

Ans: The three rules to stay safe at school are:

(i) Never run around the benches in the classroom.

(ii) Do not get into or get off in a moving bus.

(iii) Do not run while climbing up or coming down the stairs.

4. What should we use to cross the road safely?

Ans: To cross the road safely we should use a zebra crossing or a subway.

5. What is first aid?

Ans: The immediate help given to an injured person is called first aid.

6. How would you help a person with cuts and wounds?

Ans: For small cuts and wounds, first wash the area with water, wipe gently and put an antiseptic cream. Then, tie a bandage or a clean handkerchief around the wound.

NOTE: The above exercise should be done in the school notebook.

HINDI	SUB- HINDI
	निर्देश
	1 . सभी कार्य निर्देशानुसार करें ।
	2 . पाठ का नाम ,दिनांक एवं मारजिन के साथ लिखे ।
	3 . साफ और सुंदर लिखावट का प्रयोग करे ।
	HINDI LITERATURE
	पाठ – नटखट टिंकी
	। . पाठ को दो बार पढे ।
	॥ . प्रथम पृष्ठ में बेर खाती हुई गिलहरी का चित्र बनाए ।
	III . निम्न शब्दो के अर्थ लिखें । (pg 16 )(नोट बुक )
	नटखट फुर्ती
	फुनगी बाग
	IV . एक या दो शब्दो में उत्तर दें । ( मौखि क pg 17) पाठ्य पुस्तिका (किताब )में ही उत्तर) लिखे
	प्रश्न 1 . टिंकी कै सी थी ?
	उत्तर - नटखट
	प्रश्न २ . टिंकी को क्या खाना अच्छा लगता था ?
	उत्तर – बेर
	प्रश्न 3 . ट्रिंकी की फ़ेंकी गुठलियां किसे लग रही थी ?
	उत्तर – चिड़िया को
	प्रश्न 4 . ट्रिंकी के गले में क्या फँस गई ?
	उत्तर – बेर की गुठली
	<u> V . लिखित (नोट बुक )</u>
	प्रश्न 1 . टिंकी क्या – क्या काम करती थी ?
	उत्तर – क / ट्रिंकी पेड़ पर चढ़ती थी ,
	ख/ चिड़ियों के बच्चों को डराती थी ,
	ग/ सोए हुए बंदूरो की पीठ पर चढ़ जाती थी और
	घ/ बेर खाती थी।
	प्रश्न 2 . एक दिन टिंकी ने क्या किया ?
	उत्तर – एक दिन टिंकी माँ की अनुपस्थिति में पेड़ पर चढ़ गई और खट्टे मीठे बेर खाने लगी । बेर
	की गुठलियां नीचे चिड़ियों पर फेंकने लगी । एक बेर गुठली उसके गले में फँस गई ।
	प्रश्न 3 . टिंकी की हरकत को कौन देख रहा था ? वह कहाँ बैठा था ?
	उत्तर . टिंकी की हरकत को एक बंदर देख रहा था । वह एक पेड़ पर ठा हुआ था ।
	प्रश्न 4 . टिंकी को नीचे क्यों उतरना पड़ा ? जन्म - विंन्सी न्हें का मर्च की संजयने विंन्ही नरे की जन्मरे जन्म का स
	उत्तर – टिंकी की माँ आ गई थी । उसने टिंकी को नीचे उतरने कहा था । पक्ष हु किंगी जुन जेनस जुन कों जे सम्म 2
	प्रश्न 5 . टिंकी का चेहरा लाल क्यों हो गया ? रूपर - चिंची के पूर्व में एक प्रतनी फॅंपर पूर्व भी निप्रा ने उपनी आंग प्राप्त क्यी । वसी से उपन्त
	उत्तर – टिंकी के गले में एक गुठली फँस गई थी जिससे उसकी सांस घुटने लगी । इसी से उसका
	चेहरा लाल पड़ गया । पश ८ - चिंन्ही के पत्ने में फिँगी परनी कैने जिन्हनी २
	प्रश्न 6 . टिंकी के गले में फँसी गुठली कैसे निकली ? प्रसर एक बंदर ने एक निनका दिंकी की नाक में टाला और उसे एटएटाने लाए । टरा से दिंकी
	उत्तर – एक बंदर ने एक तिनका टिंकी की नाक में डाला और उसे गुदगुदाने लगा । इस से टिंकी

VI. बताओ किसने कहा?(pg 17 - अभ्यास पुस्तिका (किताब) में करें)VI. बताओ किसने कहा?टिकी की याँ ने कहा2. क्या हुआ टिकी?टिकी की याँ ने कहा3. टिकी के गतो में के की उठती फँसी है।बंदर ने कहा4. बल्लू तोतो को बुलाओ ।किसी ने कहा5. गुठली। यह फैसे निकतेगी?टिकी की गौ ने कहा6. बल्लू तोता तो बाग में अमरूद खाने गया है।कबूतर ने कहाVII. उपित प्रबद्ध चुनकर खाली जगह भरो । (pg 18 स्वयं पाठय - पुस्तिका(किताब) में करें))VIII. तमिय प्रबद्ध चुनकर खाली जगह भरो । (pg 18 स्वयं पाठय - पुस्तिका(किताब) में करें))VIII. तमिय प्रबद्ध चे वाक्य बनाये । ( वाक्य पाठ से चुनकर ना लिखें, हिन्दी के नोटबुक में लिखें)1. नत्खट2. गुठली1. नत्खट2. गुठली1. तनत्खट2. गुठली1. नत्खट2. गुठली1. नत्खट४ चांतभागकर४ चलकरअच्छा४ चुरातदाबहरश्वहर४ खातबाहर४ खातबाहर४ खातबाहर४ खातबाहर४ खातबाहर४ खातखाहर४ खात	को जोर से छींक आई औ	ोर गठली बाहर आ गि	री ।		
उत्तर - 1. यह क्या हो रहा है ?       टिंकी की माँ ने कहा         2. क्या हुआ टिंकी ?       टिंकी की माँ ने कहा         3. टिंकी के गले में बेर की गुठली फॅंसी है ।       बंदर ने कहा         4. बल्दु तोते को बाग में अमरूद खाने गया है ।       कबूतर ने कहा         6. बल्दु तोता तो बाग में अमरूद खाने गया है ।       कबूतर ने कहा         7. गठती ! यह कैसे निकलेगी ?       टिंकी की माँ ने कहा         6. बल्दु तोता तो बाग में अमरूद खाने गया है ।       कबूतर ने कहा         7. गठति ! यह कैसे निकलेगी ?       टिंकी की माँ ने कहा         6. बल्दु तोता तो बाग में अमरूद खाने गया है ।       कबूतर ने कहा         7. गटतिव ! यह कैसे निकलेगी ?       टिंकी की माँ ने कहा         6. बल्दु तोता तो बाग में अमरूद खाने गया है ।       कबूतर ने कहा         7. गटतिव ! यह कस पात चा पाठ से चुनकर ना लिखे !       मिंक ने ने हा         1. नटखट       2. गुठली ! उ. तमाथा       4. तिनका         7. दिलोम शब्द लिखें ! (हिन्दी नोटबुक में लिखे )       गव्द स कर पात         बाकर पात         नटखट         पात         बाकर पा पाठ से चुनकर         बाकर अंदर         पात         बाकर अंदर         खर अंदर         बाकर अंदर         खर अंदर <td colspan="2" t<="" th="" अंदर<="" खर=""><th></th><th></th><th></th></td>	<th></th> <th></th> <th></th>				
2. क्या हुआ टिंकी ?       टिंकी के गले में बेर की गुठली फँसी है ।       बंदर ने कहा         3. टिंकी के गले में बेर की गुठली फँसी है ।       बंदर ने कहा         4. बल्लु तोत को बुलाओ ।       किसी ने कहा         5. गुठली 1 यह केसे निकलेगी ?       टिंकी की माँ ने कहा         6. बल्लु तोता तो बाग में अमरूद खाने गया है ।       कबूतर ने कहा         7. उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरो । ( pg 18 स्वयं पाठय - पुस्तिका(किताब )में करें )         7. गटखट 2. गुठली 1 या वस्य पाठ से चुनकर ना लिखें . हिन्दी के नोटबुक में लिखें )         1. नटखट 2. गुठली 1 या वस्य पाठ से चुनकर ना लिखें . हिन्दी के नोटबुक में लिखें )         शब्द वाकर बाली जगह भरो । ( pg 18 स्वयं पाठय - पुस्तिका(किताब )में करें )         7. तिलीम शब्द लिखें । ( हिन्दी नोटबुक में लिखे )         शब्द विश्वीम         नटखट X       शति         मागकर प चलकर         अच्छा X       बुता         तदन कर पात         बाहर X       खंत         अप्ता कार्य ( pg 28- 30 )         1. (क) लिंग किस कहते है ? (पाठय – पुस्तिका(किताब )में ही करे।         उतरो X       खंते         अप्ता को प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । (पाठय – पुस्तिका(किताब ) में ही करे।         उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग         उत्तर – दंज्ञा राकर के होते है –         ( ( ख) लिंग के प्रकर होते है –         ( ( ख) लिंग के प्रकार के होते है					
3. टिंकी के गले में बेर की गुठली फॅंसी है ।       बंदर ने कहा         4. बल्लु तोते को बुलाओ ।       किसी ने कहा         5. गुठली ! यह कैसे निकलेगी ?       टिंकी की माँ ने कहा         6. बल्लु तोता तो बाग में अमरूद खाने गया है ।       कबूतर ने कहा         VII. उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरो ! (pg 18 स्वयं पाठय - पुस्तिका(किताब) में करें)         VII. निम्न शब्द सिखें ! ( विय्ये पाठ से चुनकर ना सिखें, हिन्दी के नोटबुक में सिखें)         1. नटखट       2. गुठली 3. तमाशा         VII. विलोम शब्द सिखें ! ( हिन्दी नोटबुक में सिखें)         1. नटखट       2. गुठली 3. तमाशा         4. तिलका         1. नदखट       2. गुठली 3. तमाशा         4. तिलका         1. नदखट       2. गुठली         3. तमाश       4. तिनका         1. नदखट       2. गुठली         3. तमाश       4. तिनका         1. नदखट       2. गुठली         3. तमाश       4. तिनका         1. ते हो मे ग र क्दा ते सिखें !         ततरा       बात         मागकर       प्र विक         ततरा       बुत         नदखर       अंदर         खरा       बुत         तेतर       बुत         प्रते से       प्रत         अतरा       (क ते दि         अतरा       खर सं सं सं सं <th></th> <th></th> <th></th>					
4. बल्लु तोते को बुलाओ ।       किसी ने कहा         5. गुठला। यह कैस निकलेगी ?       टिकी की माँ ने कहा         6. बल्लु तोता तो बाग में अमरूद खाने गया है ।       कबूतर ने कहा         VII. उचित शब्द चुनकर खाली जाह भरी । (pg 18 स्वयं पाठय – पुस्तिका(किताब) में करें)         VIII. निम्न शब्दो से वाक्य बनाये । ( वाक्य पाठ से चुनकर ना लिखें , हिन्दी के नोटबुक में लिखें )         1. नटखट       2. गुठली         3. तमाशा       4. तिनका         IX. तिलोम शब्द लिखें । ( हिन्दी नोटबुक में लिखे )         खब्द       विलोम         नटखट       2. गुठली         अब्द       विलोम         नटखट       2. गुठली         अत्तर       चुता         नटखट       2. गुठली         अत्वा       4. विलकर         मागकर       2. गुठली         अख्या       3. तमाशा         मागकर       2. गुठली         अख्या       3. तमाशा         दतरे       शांत         भागकर       2. वाकर         कुर्तो       X       चति         उतरो       X       चदो         रोन       X       खरे         अतरा       (क्रा के होते है ? [पाठय - पुस्तिका(किताब )में ही करे]         उतरो       X       चढो         अतरा       कहोते है ?	2 . फ्या हुआ १८७	신 - 1년 - 1년	•		
5. गुठली ! यह कैसे निकलेगी ?       टिंकी की माँ ने कहा         6. बल्लु तोता तो बाग में अमरूद खाने गया है । कबूतर ने कहा         VII. उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरो । (pg 18 स्वयं पाठय – पुस्तिका(किताब) में करें )         VII. निम्न शब्दो से वाक्य बनाये । ( वाक्य पाठ से चुनकर ना लिखें , हिन्दी के नोटबुक में लिखें )         1. नटखट       2. गुठली         1. नटखट       2. गुठली         शब्द       विलोम         गटखट       2. गुठली         1. नटखट       2. गुठली         शब्द       विलोम         नटखट       X       शति         भागकर       X       वलकर         अच्छा       X       वलकर         अच्छा       X       वलकर         अच्छा       X       वलकर         अच्छा       X       ब्लकर         अच्छा       X       ब्लकर         अच्छा       X       खरा         प्रित       X       खरा         उतरो       X       खरा         उतरो       X       खरा         उतरो       X       हँसने <b>HINDI LANGUAGE</b> अभ्यास कार्य ( pg 28-30)       1. (की लिंग के कहते है ? (पाठय – पुस्तिका(किताब) में ही करे]         उत्तर – संज्ञ शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जरा स्त्री जो जीति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है ।					
6. बल्लु तोता तो बाग में अमरूद खाने गया है । कबूतर ने कहा         VII. उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरो । (pg 18 'स्वय' पाठंग – पुस्तिका(किताब) में करें )         VIII. निम्न शब्दो से वाक्य बनाये । ( वाक्य पाठं से चुनकर ना लिखें , हिन्दी के नोटबुक में लिखें )         1. नटखट 2. गुठली 3. तमाशा 4. तिनका         IX. विलोम शब्द लिखें । ( हिन्दी नोटबुक में लिखे )         शब्द विलोम         नटखट X       शांत         भागकर X       चलकर         अच्छा X       बुरा         दिन X       रात         बाहर X       खेत         एनती X       खात         प्राक्य प्रत       ब्रिंग         प्रांत       भागकर         प्राकर X       चलकर         अच्छा X       बुरा         दिन X       रात         बाहर X       संत         प्रांते       X         खतरो X       चढो         रोने X       हँसने         HINDI LANGUAGE         अभ्यास कार्य (pg 28-30)         1. (क) लिंग किसे कहते है ? (पाठय – पुस्तिका(किताब) में ही करे।         उत्तर – संजा शबद के जिस रुप से उसके पुरुष अर्क चताहे पातंव – पुरित्तका(किताब) में ही करे।         उत्तर – संजा शबद के जिस रुप से उसके पुरुष कर बताइए । [पाठय – पुस्तिका(किताब) में ही करे।         उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है -         । (खा विंग कर तहर दी माषा के पाठय					
VII. उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरो । ( pg 18 स्वयं पाठय – पुस्तिका(किताब)में करें )         VIII. निम्न शब्दो से वाक्य बनाये । ( वाक्य पाठ से चुनकर ना लिखें, हिन्दी के नोटबुक में लिखें)         1. नटखट       2. गुठली       3. तमाशा       4. तिनका         IX. विलोम शब्द लिखें । ( हिन्दी नोटबुक में लिखे )         शब्द       विलोम         नटखट       X       शांत         भागकर       X       चलकर         अच्छा       X       बुरा         दिन       X       यतकर         अच्छा       X       बुरा         दिन       X       यत         बाहर       X       अंदर         फुर्ती       X       आलस्य         उतरो       X       चंदो         रोने       X       हँ सने         HINDI LANGUAGE       अभ्यास कार्य ( pg 28- 30 )         1. (क) लिंग किरते कहते है ? (पाठय – पुस्तिका(किताब )में ही करे)       उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्ती जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग         उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उत्तहरण देकर बताइए । (पाठय – पुस्तिका(किताब ) में ही करे)       उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है –         1. (पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी, सुनार शेर, जुता ।       । स्तिलिंग – उदाहरण - आदमी, सुनार शेर, जुता ।         1. सुल्लिंग – उदाहरण - दादी , गाय , चुहिया, हिंथिनी ।       (दोनों प्रश्नो के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठय – पुस्तिका ।					
VIII. निम्न शब्दो से वाक्य बनाये । ( वाक्य पाठ से चुनकर ना लिखें , हिन्दी के नोटबुक में लिखें )         1. नटखट       2. गुठली       3. तमाशा       4. तिनका         IX. विलोम शब्द लिखें । ( हिन्दी नोटबुक में लिखे )         शब्द       विलोम         नटखट       X       शांत         भागकर       X       विलोम         नटखट       X       शांत         भागकर       X       चलकर         अच्छा       X       बुरा         दिन       X       रात         बाहर       X       उतरा         उतरो       X       चढो         उतरो       X       चढो         उतरो       X       चढो         अभ्यास कार्य ( pg 28- 30 )       1. (क) लिंग किसे कहते है ? [पाठय – पुस्तिका(किताब )में ही करे]         उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग         कहते है ।       (ख) लिंग वितने प्रकार के होते है -         (ख) लिंग दो प्रकार के होते है –       1. पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी, सुनार शेर , जूता ।         ॥ रसीलिंग – उदाहरण - आदमी, सुनार शेर , जूता ।       1. रसीलिंग – उदाहरण - आदमी, सुनार शेर , जूता ।         ॥ रसीलिंग – उदाहरण - यादी, गाय , चुहिया ,हथिनी ।       (दोनों प्रश्ना के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठय – पुस्तिका (किताब )         गे       उताहरिंग – उदाहरण - आददी को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के	_ 6 . बल्लु ताता त	॥ बागू म अमरूद खा <sup>,</sup>	न गया ह । कबूतर न कहा		
1. नटखट       2. गुठली       3. तमाशा       4. तिनका         1X. विलोम शब्द लिखें। (हिन्दी नोटबुक में लिखे)         शब्द       विलोम         नटखट       X       शांत         भागकर       X       वलकर         अच्छा       X       बत्त         प्रागकर       X       वलकर         अच्छा       X       बुरा         दिन       X       रात         बाहर       X       अंदर         फुर्ती       X       उतरो         उतरो       X       चढो         रोने       X       हँसने         HINDI LANGUAGE       अभ्यास कार्य (pg 28- 30)       1. (क) लिंग किसे कहते है ? [पाठय – पुस्तिका(किताब )में ही करे]         उत्तरे       -       -       इँसने         माठा विनने प्रकार के होते है ? [पाठय – पुस्तिका(किताब )में ही करे]       उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्ती जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है ।         (ख) लिंग विनते प्रकार के होते है –       1. पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी, सुनार शेर, जूता ।         ॥ रसीलिंग – उदाहरण - आदमी, सुनार शेर, जूता ।       1. स्तीलिंग – उदाहरण - आददी, गाय, चुहिया, हथिने ।         (दोनों य्रो) येज उत्तर हिन्दी भाषा की पाठय – पुस्तिका (किताब )       करे ।         2. पुल्लिंग – उदाहरण - दादी, गाय, चुहिया, हथिने ।       .         (दोनों य्रो) के उत					
IX. विलोम शब्द लिखें । (हिन्दी नोटबुक में लिखे )         शब्द       विलोम         नटखट       X       शांत         भागकर       X       वलकर         अच्छा       X       बुरा         दिन       X       रात         बाहर       X       अंदर         फुर्ती       X       अंदर         फुर्ती       X       आलस्य         उतरो       X       बढ़ो         रोने       X       हँसने         HINDI LANGUAGE       अभ्यास कार्य ( pg 28- 30 )       1.(क) लिंग किसे कहते है ? [पाठ्य – पुस्तिका(किताब )में ही करे]         उत्तर – संज्ञ शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है ।       (ख ) लिंग कितने प्रकार के होते है -         (ख ) लिंग कितने प्रकार के होते है -       ! पुल्तिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार श्रेर , जूता ।         ॥ . स्त्रीलिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार श्रेर , जूता ।       ।         ॥ . स्त्रीलिंग – उदाहरण - यादी , गाय , चुहिया हधिनी ।       (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में ही करे )         2. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें ।       3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें ।         3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें ।       3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । <t< th=""><th>VIII . निम्न शब्दों से वाक्य</th><th>। बनाये । ( वाक्य पार</th><th>ठ से चुनकर ना लिखें , हिन्दी के नोटबुक में लिखें )  </th></t<>	VIII . निम्न शब्दों से वाक्य	। बनाये । ( वाक्य पार	ठ से चुनकर ना लिखें , हिन्दी के नोटबुक में लिखें )		
शब्द       विलोम         नटखट       X       शांत         भागकर       X       बुरा         भागकर       X       बुरा         दिन       X       बुरा         दिन       X       गुरा         बाहर       X       अंदर         फुर्ती       X       अवहा         उतरो       X       चढ़ो         रोने       X       हँ सने         HINDI LANGUAGE       अभ्यास कार्य ( pg 28- 30 )       1. (क) लिंग किसे कहते है ? [Uाठय – पुस्तिका(किताब )में ही करे]         उत्तर - संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है ।       (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठय – पुस्तिका(किताब ) में ही करे]         उत्तर - लिंग दो प्रकार के होते है -       !       ! पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार श्रे , जूता ।         ॥ . स्त्रीलिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार श्रे , जूता ।       !       !         ! . पुल्लिंग – उदाहरण - यादी , गाय , चुहिया ,हथिनी ।       (दोनों प्रश्ने के उतार हिन्दी भाषा की पाठय – पुस्तिका (किताब )         ? . पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें ।       ?         ? . पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें ।         ? . पुरेल पं वित के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें )					
नटखट X शांत भागकर X चलकर अच्छा X बुरा दिन X रात बाहर X अंदर फुर्ती X आलस्य उतरो X चढ़ो रोने X हँसने HINDI LANGUAGE अभ्यास कार्य (pg 28 - 30) 1.(क) लिंग किसे कहते है ? [पाठय – पुस्तिका(किताब )में ही करे] उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठय – पुस्तिका(किताब ) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – (ख) लिंग – उदाहरण - आदमी, सुनार शेर , जूता । ॥. स्त्रीलिंग – उदाहरण - वादी , गाय , चुहिया ,हथिनी । (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठय – पुस्तिका (किताब ) य. पुल्लिंग औं के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठय – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4. प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5. रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । (हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब	।X . विलोम शब्द लिखें ।	( हिन्दी नोटबुक में वि	लेखे )		
भागकर X चलकर अच्छा X बुरा दिन X रात बाहर X अंदर फुर्ती X आलस्य उतरो X चढ़ो रोने X हाँसने HINDI LANGUAGE अभ्यास कार्य (pg 28-30) 1.(क) लिंग किसे कहते है ? [पाठय – पुस्तिका(किताब) में ही करे] उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठय – पुस्तिका(किताब ) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – 1. पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । ॥. स्त्रीलिंग – उदाहरण - वादी , गाय , चुहिया ,हथिनी । (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा के पाठय – पुस्तिका में ही करे ) 2. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठय – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4. प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5. रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । (हिन्दी भाषा की पाठय – पुस्तिका (किताब	হাল্ব		<u>विलोम</u>		
अच्छा X बुरा दिन X रात बाहर X अंदर फुर्ती X आलस्य उतरो X चढ़ो रोने X चढ़ो रोने X हँसने HINDI LANGUAGE अभ्यास कार्य ( pg 28-30 ) 1.(क) लिंग किसे कहते हैं ? [पाठय – पुस्तिका(किताब )में ही करे] उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते हैं ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठय – पुस्तिका(किताब ) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते हैं – 1 . पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । ॥. स्त्रीलिंग – उदाहरण - वादी , गाय , चुहिया, हथिनी । (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठय – पुस्तिका में ही करे ) 2. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठय – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4. प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5. रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । (हिन्दी भाषा की पाठय – पुस्तिका (किताब	नटखट	Х	शांत		
दिन X रात बाहर X अंदर फुर्ती X आलस्य उतरो X चढ़ो रोने X हँसने HINDI LANGUAGE अभ्यास कार्य ( pg 28- 30 ) 1 .(क) लिंग किसे कहते है ? [पाठ्य – पुस्तिका(किताब )में ही करे] उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठ्य – पुस्तिका(किताब ) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – 1 . पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । 11. स्त्रीलिंग – उदाहरण - यादी , गाय , चुहिया ,हथिनी । (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे ) 2. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4. प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5. रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । (हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब	भागकर	Х	चलकर		
दिन X रात बाहर X अंदर फुर्ती X आलस्प उतरो X चढ़ो रोने X हँसने HINDI LANGUAGE अभ्यास कार्य ( pg 28- 30 ) 1.(क) लिंग किसे कहते है ? [पाठ्य – पुस्तिका(किताब )में ही करे] उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठ्य – पुस्तिका(किताब ) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – 1. पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । 11. स्त्रीलिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । 12. पुल्लिंग जै उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे ) 2. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4. प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5. रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । (हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब	अच्छा	Х	बुरा		
बाहर X अंदर फुर्ती X आलस्य उतरो X चढ़ो रोने X हँसने HINDI LANGUAGE अभ्यास कार्य ( pg 28- 30 ) 1 .(क) लिंग किसे कहते है ? [पाठ्य – पुस्तिका(किताब )में ही करे] उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठ्य – पुस्तिका(किताब ) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – । . पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । ॥ . स्तीलिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । ॥ . स्तीलिंग – उदाहरण - वादी , गाय , चुहिया ,हथिनी । (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे ) 2 . पुल्लिंग और स्तीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3 . लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4 . प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5 . रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । (हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब	दिन	Х			
पुर्ती X आलस्य उतरो X चढ़ो रोने X हँसने HINDI LANGUAGE अभ्यास कार्थ (pg 28- 30) 1.(क) लिंग किसे कहते है ? [पाठ्य – पुस्तिका(किताब) में ही करे] उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठ्य – पुस्तिका(किताब) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – । . पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी, सुनार शेर , जूता । ॥. स्त्रीलिंग – उदाहरण - आदमी, सुनार शेर , जूता । ॥. स्त्रीलिंग – उदाहरण - वादी , गाय , चुहिया ,हथिनी । (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे ) 2. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4. प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5. रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । (हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब					
उतरो X चढ़ो रोने X हँसने HINDI LANGUAGE अभ्यास कार्य (pg 28-30) 1.(क) लिंग किसे कहते है ? [पाठ्य - पुस्तिका(किताब) में ही करे] उत्तर - संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठ्य - पुस्तिका(किताब) में ही करे] उत्तर - लिंग दो प्रकार के होते है - 1. पुल्लिंग - उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । ॥. स्त्रीलिंग - उदाहरण - वादी , गाय , चुहिया ,हथिनी । (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य - पुस्तिका में ही करे ) 2. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग - अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य - पुस्तिका (किताब ) में करें । 4. प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5. रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । (हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब					
रोने x हँसने HINDI LANGUAGE अभ्यास कार्य ( pg 28- 30 ) 1.(क) लिंग किसे कहते है ? [पाठ्य – पुस्तिका(किताब )में ही करे] उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठ्य – पुस्तिका(किताब ) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – 1. पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । 11. स्त्रीलिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । 11. स्त्रीलिंग – उदाहरण - वादी , गाय , चुहिया ,हथिनी । (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे ) 2. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4. प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5. रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । (हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब			-		
HINDI LANGUAGE अभ्यास कॉर्य ( pg 28- 30 ) 1.(क) लिंग किसे कहते है ? [पाठ्य – पुस्तिका(किताब )में ही करे] उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठ्य – पुस्तिका(किताब ) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – । . पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । ॥. स्त्रीलिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे ) 2. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4. प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । ( हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5. रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब			हँसने		
अभ्यास कार्य (pg 28-30) 1.(क) लिंग किसे कहते है ? [पाठ्य – पुस्तिका(किताब)में ही करे] उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठ्य – पुस्तिका(किताब) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – I. पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी, सुनार शेर, जूता । II. स्त्रीलिंग – उदाहरण - वादी, गाय, चुहिया,हथिनी । (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे ) 2. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4. प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5. रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । (हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब					
अभ्यास कार्य (pg 28-30) 1.(क) लिंग किसे कहते है ? [पाठ्य – पुस्तिका(किताब)में ही करे] उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठ्य – पुस्तिका(किताब) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – I. पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी, सुनार शेर, जूता । II. स्त्रीलिंग – उदाहरण - वादी, गाय, चुहिया,हथिनी । (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे ) 2. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4. प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5. रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । (हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब	HINDI LANGUAGE				
1.(क) लिंग किसे कहते है ? [पाठ्य – पुस्तिका(किताब)में ही करे] उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठ्य – पुस्तिका(किताब) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – । . पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । ॥. स्त्रीलिंग – उदाहरण - वादी , गाय , चुहिया ,हथिनी । (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे ) 2. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4. प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5. रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । (हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब		30)			
उत्तर – संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो , उसे लिंग कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठ्य – पुस्तिका(किताब) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – । . पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । ॥ . स्त्रीलिंग – उदाहरण - वादी , गाय , चुहिया ,हथिनी । (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे ) 2 . पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3 . लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4 . प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5 . रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । (हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब	1.(क) लिंग किसे कहते	, है ? ।पाठ्य – पस्तिका	(किताब )में ही करे।		
कहते है । (ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए । [पाठ्य – पुस्तिका(किताब) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – । . पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । ॥ . स्त्नीलिंग – उदाहरण - दादी , गाय , चुहिया ,हथिनी । ( दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे ) 2 . पुल्लिंग और स्त्नीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3 . लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4 . प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । ( हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5 . रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब					
(ख) लिंग कितने प्रकार के होते है ? उदाहरण देकर बताइए। [पाठ्य – पुस्तिका(किताब) में ही करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – । . पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी, सुनार शेर, जूता। ॥. स्त्नीलिंग – उदाहरण - दादी, गाय, चुहिया,हथिनी। (दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे) 2. पुल्लिंग और स्त्नीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें। 3. लिंग बदलकर लिखिए। (Pg 27 की सहायता से)हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब) में करें। 4. प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये। (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें) 5. रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। (हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब					
करे] उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – । . पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । ॥ . स्त्नीलिंग – उदाहरण - दादी , गाय , चुहिया ,हथिनी । ( दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा कीपाठ्य – पुस्तिका में ही करे ) 2 . पुल्लिंग और स्त्नीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3 . लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा कीपाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4 . प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । ( हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5 . रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब		र के होते है ? उदाहर	ण देकर बताइए । ।पाठ्य – पस्तिका(किताब ) में ही		
उत्तर – लिंग दो प्रकार के होते है – । . पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता । ॥ . स्त्नीलिंग – उदाहरण - दादी , गाय , चुहिया ,हथिनी । ( दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा कीपाठ्य – पुस्तिका में ही करे ) 2 . पुल्लिंग और स्त्नीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3 . लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा कीपाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4 . प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । ( हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5 . रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब					
<ul> <li>। . पुल्लिंग – उदाहरण - आदमी , सुनार शेर , जूता ।</li> <li>॥ . स्त्नीलिंग – उदाहरण - दादी , गाय , चुहिया ,हथिनी ।</li> <li>( दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे )</li> <li>2 . पुल्लिंग और स्त्नीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें ।</li> <li>3 . लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें ।</li> <li>4 . प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । ( हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें )</li> <li>5 . रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब</li> </ul>		जहोते है _			
<ul> <li>II. स्लौलिंग – उदाहरण - दादी , गाय, चुहिया ,हथिंनी ।</li> <li>(दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे )</li> <li>2. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें ।</li> <li>3. लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें ।</li> <li>4. प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । (हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें )</li> <li>5. रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । (हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब</li> </ul>		-	र जना।		
( दोनों प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका में ही करे ) 2 . पुल्लिंग और स्तीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3 . लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4 . प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । ( हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5 . रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब					
2 . पुल्लिंग और स्तीलिंग शब्दो को अलग – अलग कर हिन्दी भाषा के नोट बुक में लिखें । 3 . लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4 . प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । ( हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5 . रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब					
3 . लिंग बदलकर लिखिए । (Pg 27 की सहायता से )हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब ) में करें । 4 . प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । ( हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5 . रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब					
में करें । 4 . प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । ( हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5 . रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब					
4 . प्रत्येक पंक्ति के शब्दो में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिये । ( हिन्दी भाषा के नोट बुक में करें ) 5 . रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब		ए । (Pg 27 का सहाय	।ता स )।हन्दा माषा का  पाठय – पुास्तका (।कताब )		
बुक में करें ) 5 . रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब		<del>}</del>			
5 . रंगीन शब्दो के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब		। म अलग लग वला	संज्ञा का रखाकित काजिय । ( हिन्दा भाषा के नाट		
	<i>,</i>	~ (			
)में करें)		बदलकर वाक्य पूरे के	ाजए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब		
	)में करें)				
		बदलकर वाक्य पूरे के	जिए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका (किताब		

r			
	उदाहरण ( क) <u>मोर</u> नाच रहा है । मोरनी देख रही है । 6 . रेखा खीचकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिलाइए और उनके नाम लिखिए । ( हिन्दी भाषा की पाठ्य – पुस्तिका(किताब ) में करें )		
ENGLISH	ENGLISH LANGUAGE CH - Gender		
	<ul> <li>Write the feminine gender of the following masculine gender</li> <li>1. peacock -</li> <li>2. horse -</li> <li>3. son -</li> <li>4. gander -</li> <li>5. lord -</li> <li>6. prince -</li> <li>Rewrite the following sentences with the opposite gender of the underlined words</li> <li>1. The crowd rushed to greet the <u>actor</u>.</li> <li>2. <u>Sir</u>, what would you like to have?</li> <li>3. I received a letter from my <u>uncle</u> yesterday.</li> <li>4. My <u>nephew</u> sings very well.</li> <li>5. You are a generous <u>host.</u></li> </ul>		
	PRONOUNS         Fill in the blanks with Pronouns         1. Avneet told her friend Payal that could not go to her house tonight.         2. Harry is a gentleman lives near my school.         3. Radhika and Rajesh are in the garden are playing basketball.         4. Madhav and I are going for shopping need to buy some groceeies.         5. How old are?         ENGLISH LITERATURE         PINNOCHIO		
	I - Word Bank1. Geppetto11. tossing2. carpenter12. Blue Fairy3. strange13. swimming4. puppet14 sailed		
	5. Pinocchio 15 ringmaster		

6.	miracle	16	tricks
7.	rudely	17	delight
	-		-
8.	wandered	18	deserve
9.	cunning	19	sailing
10.	orchard	20	wonderful
10.	orenard	20	wonderful
II - Syn	onyms		
1. m	iracle- wonder		
2. ru	dely- in an ill-mannered or in an ins	sulting way	
3. w	andered- walked aimlessly		
4. cu	inning- dishonest		
5. or	chard- a garden full of fruits trees		
	ssing- throwing lightly		
	ngmaster- a person in charge of a ci	rcus performance	
	icks- actions performed to entertain		
	elight- joy		
	eserve- be worthy of wandered- wal	ked aimlessly	
	inning- dishonest	2	
	chard- a garden full of fruits trees		
	ssing- throwing lightly		
	ngmaster- a person in charge of a ci	rcus performance	
	icks- actions performed to entertain		
	elight- joy		
	eserve- be worthy of		
	2		
III - An	tonyms		
	idely x politely		
	appily x sadly		
	bund x lost		
	nger x shorter		
	e x truth		
	nished x started		
	ave x took		
_	bod x bad		
-	o x down		
_	ive x dead		
	eep x laugh		
	est x worst		
12.00	51 A W0151		

IV -	Fill in the blanks
1.	Geppetto was a <u>carpenter</u> .
2.	Pinocchio's father gave him some gold coin.
3.	The ringmaster made Pinocchio work for the circus.
4.	Pinocchio hurt his leg while doing tricks.
5.	
5.	The sale of whithe boy to <u>runand</u> .
	Dne word answer
1.	Who made the wooden puppet?
Aı	ns- Geppetto
2.	Who began to weep?
Aı	ns- Pinocchio
3.	Where did Pinocchio sail off with the boy?
	ns- Funland
4.	Who appeared one day?
Aı	ns- The Blue Fairy
	Who promised to be a good boy?
	ns- Pinocchio Write true or false
1.	
	Pinocchio left his house and wandered here and there.= $\underline{\text{True}}$
3.	On the way he met a cunning cat and a sly wolf.= $\underline{False}$
4.	Pinocchio enjoyed tossing balls, riding a bicycle and swimming.= <u>True</u>
5.	In the Funland ,there are toys and games and sweets.= $T\underline{rue}$
VII	· Questions /Answers
	How was Pinocchio made?
	Pinocchio was made by a carpenter named Geppetto ,who used to make wooden toys.
	'Every time you tell a lie, your nose will grow longer'
	a) Who is the speaker?
	Ans-The Blue Fairy is the speaker.
	b) Whom does the speaker say this to?
	Ans- The speaker said this to Pinocchio.
	c) Why does the speaker say this?
	Ans- The speaker said this because Pinocchio ,being a naughty boy, started telling lies to
	the Blue Fairy.
-	How did Pinocchio enjoy himself on Funland?
	- Pinocchio had a lot of fun on Funland for two days. He enjoyed tossing balls, riding a bicycle
	swimming. What did the ring moster mode Dingoship do?
-	What did the ring master made Pinocchio do?
	- The ringmaster made Pinocchio work for the circus.
	Why was the Blue Fairy happy with Pinocchio? How did she reward Pinocchio in the end?
	- The Blue Fairy was happy with Pinocchio because when his father Gep fell ill, Pinocchio im hat some and looked after him. He studied at school so that he can get a good ich
red h	im hot soup and looked after him. He studied at school so that he can get a good job.
	The Blue Fairy rewarded him by making him a real boy because he was brave and had a

	good heart.
	$\mathbf{Q6}$ . Do you think Pinocchio was a responsible boy? Yes / No? Why do you think so?
	Ans - Yes, he was a responsible boy because at the end he realised his mistake and promised to be
	a good boy.
	<b>Q7</b> . There are good and bad characters in the story. Who do you think is the best and who is the worst? Give one reason each for your answer.
	Ans – Blue fairy is the best character in the story because when Pinocchio, being a naughty boy,
	she punished him just to teach him a lesson and when he really became a good boy, she rewarded him by making him a real boy.
	The cunning cat and a sly fox were the worst characters because they told Pinocchio that if he plants a golden coins under a tree in an orchard, next day he will get hundred coins. And when
	Pinocchio planted the coins and left, the cat and the fox took the coins and ran away. Q8. 'As you sow, so shall you reap.' If you do bad things, then bad things will happen to you. But
	if you do good things, then good things will happen to you. When Pinocchio was being naughty, he got into trouble. Do you agree? Give one example.
	Ans – Yes, I agree with this statement. Pinocchio promised the Blue Fairy to be a good boy but he did not do so. The next day, on his way to school, Pinocchio met her boy. They both went to the
	Funland. He had a lot a fun for two days. Suddenly, Pinocchio and the other boy found their ears growing longer and they were growing a tail. They were turning into donkeys.
	VIII – Make sentences.
	1. puppet – We had a puppet show for Jane's birthday party.
	2. orchard – Apples, cherries and pears are the orchard fruits.
	3. circus – A circus is a special kind of entertainment that can be enjoyed by children and adults.
	4. promised – Julie promised her father that she would obey him.
	5. fairy – After granting three wishes to the little girl, the good fairy disappeared.
	IX – Jumble Words.
	1. uppept – puppet
	2. ardchor – orchard
	3. ingrasmter – ringmaster
	4. airfy – fairy
	5. cuscir – circus
COCIAL	
SOCIAL STUDIES	Chapter-5
STUDIES	INDIA : POLITICAL DIVISIONS
	1. Read the Chapter
	2. Read the Chapter and underline the difficult words.
	3. Do the exercises :- (in the text book)
	A. Choose the correct option.
	B. Name the following.
	C. Write True or false.
	D. Match the following.
	E. Answer the following questions.
	(Q. No. 1, 2, 3, 4 in the Notebook)
	E. ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:
	1. What is the total area of India?
	Ans. The total area of India is 3.287 million square kilometres.

	2. What does the government do?		
	Ans. The government looks after the entire Country.		
	3. What is the Central government?		
	Ans. The Central government also known as Union government, works from New Delhi.		
	4. Name the Union Territories of India.		
	Ans. The Union territories are :		
	i). Andaman and Nicobar Islands.		
	ii). Chandigarh		
	iii). Dadra and Nagar Haveli		
	iv). Daman and Diu		
	v). Delhi		
	vi). Lakshadweep Islands		
	vi) Puducherry		
	viii) Jammu and Kashmir		
	,		
	ix) Ladakh		
	I – Internal exercises (to be done in Notebook).		
	II – Write the names of the following. Also paste their pictures.		
	President of India		
	Prime Minister of India		
	Extra Questions and Answers (Internal) :		
	1. How many Union Territories are there in India?		
	Ans. There are 9 Union Territories in India.		
	2. Which is the largest and the smallest State in India?		
	Ans. Rajasthan is the largest, while Goa is the smallest state of India.		
	3. Who is the nominal head of the state government?		
	Ans. The Governor is the nominal head of the state government?		
	4. In how many states and Union Territories, India is divided?		
	Ans. India has been divided into 28 states and 9 Union Territories.		
	5. What is the work of state government?		
	Ans. State government looks after the affairs of the state. It works from the capital of the		
	state.		
	6. Who is the elected head of the state government?		
	Ans. The Chief Minister is the elected head of the state government.		
	7. Who have their offices and residences in New Delhi?		
	Ans. The President, the Prime Minister and other ministers have their offices and		
	residences in New Delhi.		
COMP.SC	I. WRITE THIS IN YOUR NOTEBOOK : -		
COMI .SC	I. WRITE THIS IN TOUR NOTEBOOK		
	COMPUTER LAB RULES –		
	1. You should maintain silence in the computer lab.		
	<ol> <li>You will not touch any switch or device without teacher's instructions.</li> </ol>		
	3. You will not eat or drink inside the computer lab.		
	4. You will not mishandle or damage any device or any software in the systems.		
	5. You will follow the teacher's instructions carefully.		

## II. Identify and draw the different parts of a computer system(CPU, MONOTOR, MOUSE, KEYBOARD) in your notebook. Dr.Rachana Nair

**Director Academics**